

मासिक रिपोर्ट




जून 2024



प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर मांग में कमी के कारण मई 2024 में हल्दी की कीमतों में अधिकांश समय में गिरावट जारी रही। मानसून की बारिश के सुचारू रूप से आगे बढ़ने की भविष्यवाणी और निर्यात में सुस्ती की रिपोर्ट ने बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। 20430 के उच्च स्तर को छूने के बाद, मई 2024 के अंत तक हल्दी की कीमतें 17606 तक गिर गईं। मई 2024 में आपूर्ति में अधिक गिरावट हुई, जिसका मुख्य कारण कम उत्पादन था क्योंकि मई 2024 में भारत भर की प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 33 हजार टन हल्दी की आवक हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी समय अवधि में 61.7 हजार टन की आवक हुई थी। आवक कम रही है क्योंकि उत्पादन में साल-दर-साल 16% की गिरावट का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.7 लाख टन रह सकता है।



हल्दी की कीमतों में भारत के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में आगामी बुवाई गतिविधियों के अनुरूप तेजी आने की उम्मीद है, जो आने वाले हफ्तों में गति पकड़ने की संभावना है। खेती की लागत की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर रिटर्न दर को देखते हुए, ऐसा लगता है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में हल्दी के अंतर्गत आने वाले रकबे में 10%-15% की वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हल्दी का उत्पादन पिछले वर्ष के 10.45 लाख टन की तुलना में 9.71 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में हल्दी का उत्पादन क्षेत्र 3.00-3.20 लाख हेक्टेयर के बीच रहने की संभावना है।




मार्च 2024 में भारत से हल्दी का निर्यात साल-दर-साल 7% घटकर 17.43 हजार टन रह गया, जबकि अप्रैल 2023-मार्च 2024 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 4.7% कम होकर 162.0 हजार टन रहा। निर्यात मौसमी के अनुसार आगामी महीनों में हल्दी का निर्यात सुस्त रहने की संभावना है। हल्दी की कीमतें अभी भी सामान्य की तुलना में बहुत अधिक चल रही हैं, जिससे हल्दी की निर्यात मांग और प्रभावित हो सकती है। पूरे भारत में आपूर्ति कम होने के कारण हाजिर कीमतों में नुकसान सीमित रहा क्योंकि जून 2024 के पहले सात दिनों में एपीएमसी मंडियों में लगभग 2056 टन हल्दी की आवक हुई जबकि पिछले सप्ताह 5643 टन की आवक हुई थी। हल्दी में मजबूती बरकरार रहने की संभावना है क्योंकि कुल आवक की गति पिछले साल की तुलना में धीमी रही है और प्रत्येक बीतते सप्ताह के साथ इसमें गिरावट होने की संभावना है। हल्दी की कीमतों के 16000-20400 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

# हल्दी


हल्दी का साप्ताहिक चार्ट



स्थानीय बाजार में फिर से खरीदारी के बाद मई 2024 में जीरा वायदा की कीमतों में तेज उछाल दर्ज की गई। अप्रैल 2024 में 21320 के निचले स्तर को छूने के बाद जीरा की कीमतों में मई 2024 में लगभग 43% की तेजी आई और यह 30465 के मासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। मई 2024 में आपूर्ति में वृद्धि हुई क्योंकि स्टॉकिस्टों ने उच्च उत्पादन अनुमानों के मद्देनजर महीने के दूसरे भाग के दौरान मुनाफा वसूली शुरू कर दी। मई 2024 के दौरान प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 51 हजार टन जीरा की आवक हुई, जबकि अप्रैल 2024 में 45.7 हजार टन और पिछले वर्ष इसी महीने 22 हजार टन जीरा की आवक हुई थी।



जून में आपूर्ति में फिर से गिरावट हुई क्योंकि पिछले सप्ताह के 8373 टन की तुलना में भारत भर में प्रमुख एपीएमसी मंडियों में केवल 4218 टन की आवक दर्ज की गई। किसानों और स्टॉकिस्टों ने मई 2024 में बेहतर मूल्य प्राप्त होने पर अपने स्टॉक को बेच दिया, लेकिन कीमतों में आगे भी वृद्धि की उम्मीद में अब जून 2024 में भारी बिक्री से परहेज किया। जीरे का कुल उत्पादन साल दर साल 30% अधिक रहने की संभावना है, जो वर्ष 2024-25 में 8.15 लाख टन के करीब हो सकता है। निर्यात के लिए सुविधाओं में सुधार के कारण जीरे की निर्यात मांग अधिक रही है। मार्च 2024 में भारत से जीरे का निर्यात साल दर साल 73% बढ़कर 32.12 हजार टन रहा। चीन, बांग्लादेश और यूएई भारतीय जीरे के प्रमुख खरीदार हैं। लेकिन, वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात साल दर साल 13.5% कम रहा है, जिसका मुख्य कारण चीन और बांग्लादेश द्वारा खरीद में कमी है।



मुख्य रूप से भौतिक बाजार में आपूर्ति कम होने के कारण जीरे की कीमतों में तेजी के रुझान के साथ साइडवेज कारोबार होने की उम्मीद है। भारतीय जीरे के अपेक्षाकृत सस्ता होने के कारण निर्यात पृष्ठताछ अधिक रहने की संभावना है, जो स्टॉकिस्टों और निर्यातकों को हर गिरावट पर खरीदारी करने के लिए आकर्षित करेगी। लेकिन, मिल मालिकों और अन्य कारोबारियों के पास भारी स्टॉक होने से बढ़त सीमित हो सकती है। जीरे की कीमतों के 24000-35000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।




# जीरा

जीरा का साप्ताहिक चार्ट



# धनिया

बाजार में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण धनिया की कीमतों में मिला-जुला कारोबार हुआ। धीमी आवक गति और कमजोर उत्पादन अनुमानों ने कीमतों में मजबूती का समर्थन किया। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आवक कम होने के कारण मई में धनिया की कीमतें बढ़कर 7914 हो गईं। आपूर्ति में गिरावट आई है क्योंकि मई-24 में भारत भर की प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर केवल 38 हजार टन धनिया पहुंचा, जबकि अप्रैल-24 में यह 45 हजार टन और पिछले वर्ष इसी महीने में 97 हजार टन था। धनिया के उत्पादन में साल-दर-साल 26% की कमी आई है, जिससे अब तक की कुल आवक में कमी आई है।



निर्यात अधिक रहा है जिससे कीमतों की मजबूती को भी समर्थन मिलेगा। चीन और बांग्लादेश से मांग बढ़ गई है, जिससे निर्यातकों को कीमतों में हाल ही में गिरावट के कारण धनिया खरीदने के लिए प्रेरित किया गया है। अप्रैल-23-मार्च-24 के दौरान धनिया का कुल निर्यात 94.9 हजार टन दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल 115% अधिक है। बाजार बड़े कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ चल रहा है जो धनिया की कीमतों में बहुत सीमित करेगा। आने वाले हफ्तों में धनिया की कीमतें 6900-8000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

## धनिया का साप्ताहिक चार्ट



|                   |                        |                                  |                                  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| वंदना भारती       | एवीपी कमोडिटी रिसर्च   | फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 625 | vandanabharti@smcindiaonline.com |
| रवि पाण्डेय       | सीनियर रिसर्च एनालिस्ट | फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 674 | ravi16@smcindiaonline.com        |
| शिवानन्द उपाध्याय | रिसर्च एसोसिएट         | फोन न. 011-30111000 एक्सटें. 646 | shivanand@smcindiaonline.com     |

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार को जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशांसात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिट्यू नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड का सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एसएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिक्वोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधि एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सर्विलेंशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्य सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पॉजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकार में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा।